

मास्टर ऑफ बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन (MBA) / मास्टर ऑफ बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन (ऑनलाइन) MBA(OL) / मास्टर ऑफ बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन (फ़ाइनेंशियल मैनेजमेंट) (MBAFM) / पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन फ़ाइनेंशियल मैनेजमेंट (PGDIFM)

सत्रीय कार्य
2026-2027

जुलाई 2026 और जनवरी 2027 सत्र

एमएमपीएफ - 008: इक्विटी डेरिवेटिव्स

(सत्रीय कार्य को जमा करने के लिए जुलाई 2026 सत्र के लिए अंतिम तिथि 31 अक्टूबर 2026 है
और जनवरी 2027 के लिए 30 अप्रैल 2027 है)



प्रबंध अध्ययन विद्यापीठ
इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय
मैदान गढ़ी, नई दिल्ली –1100 68

सत्रीय कार्य

पाठ्यक्रम का कोड	:	एमएमपीफ -008
पाठ्यक्रम का शीर्षक	:	इक्विटी डेरिवेटिव्स
सत्रीय कार्य का कोड	:	एमएमपीफ -008/टी. एम. ए./ जुलाई /2026-27

नोट: सभी प्रश्नों का उत्तर दीजिए तथा यह सत्रीय कार्य अपने अध्ययन केंद्र के समन्वयक को जमा कीजिए। जुलाई 2026 सत्र हेतु अंतिम तिथि 31 अक्टूबर 2026 तथा जनवरी 2027 सत्र हेतु 30 अप्रैल 2027 है।

1. भारतीय पूंजी बाजार में उपलब्ध विभिन्न उपकरण / प्रपत्रों साधनों की व्याख्या कीजिए। साथ ही, इक्विटी अंशों (Equity Shares), वरीयता अंशों (Preference Shares) तथा डिबेंचरों (Debentures) का तुलनात्मक विश्लेषण कीजिए।
2. निम्नलिखित में से किसी दो पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए—
 - (क) वायदा अनुबंध (Futures Contract)
 - (ख) विकल्प अनुबंध (Option Contract)
 - (ग) स्वैप्स (Swaps)
3. निम्नलिखित प्रश्नों का समाधान कीजिए—
 - (क) एक निवेशक XYZ जून वायदा (June Futures) का एक लॉट ₹1,450 पर खरीदता है। लॉट का आकार 300 अंशों का है। एक सप्ताह बाद वायदा मूल्य बढ़कर ₹1,500 हो जाता है तथा निवेशक अपनी स्थिति समाप्त (Square Off) कर देता है। गणना कीजिए कि उसे कितना लाभ प्राप्त हुआ।
 - (ख) एक निवेशक ABC वायदा (ABC Futures) में ₹2,100 पर दीर्घ स्थिति (Long Position) ग्रहण करता है। लॉट का आकार 250 अंशों का है। परिपक्वता से पूर्व वायदा मूल्य घटकर ₹2,040 हो जाता है तथा निवेशक अपनी स्थिति बंद कर देता है। गणना कीजिए कि उसे कितना लाभ अथवा हानि हुई।
4. डेरिवेटिव बाजार (Derivatives Market) क्या है? इसके प्रमुख प्रतिभागियों, जैसे—जोखिम आवरणकर्ता (Hedgers), सट्टेबाज (Speculators) तथा मध्यस्थ लाभ अर्जक (Arbitrageurs) की भूमिका की व्याख्या कीजिए।
5. ओवर-द-काउंटर (OTC) डेरिवेटिव्स तथा एक्सचेंज में कारोबारित डेरिवेटिव्स (Exchange-Traded Derivatives – ETDs) की मानकीकरण, पारदर्शिता, तरलता तथा जोखिम के संदर्भ में तुलना कीजिए।